

No of page.8

Your Roll No.

Sr. No. of Question Paper: 13562
Unique Paper Code: 2414001001
Name of the Paper: Accounting For Everyone
Type of the Paper: **COMMON PROG GROUP (GE) UGCF**
Semester: I
Duration: 3 Hours

Maximum Marks: 90

Instruction for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
 2. Answer May be written in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper
 3. Attempt all question. All questions are Compulsory.
 4. All questions carry equal marks.
 5. Use of Simple Calculator allowed.
-
1. A) The primary purpose of the Accounts is to provide information that is useful in making Investment and Credit decision. Explain. (8)
B) What do you mean by accounting principles. Describe four Accounting Principles with examples. (10)
- OR
- A) Distinguish Between Single entry system and Double entry System of Accounting. (10)
 - B) **State, giving reason in brief, whether each of the following Statement is "True or False"**
 1. Accounting is only an art and not a science
 2. Accounting Information can be presented for non- Monetary events also.
 3. All transactions in a business enterprise are recorded on cash basis.
 4. Short term creditors and long-term creditors require same type of accounting information. (8)
-
2. A) Explain the rules for debit and credit for traditional classification of accounts and accounting equation-based classification of accounts. (12)
B) "Ledger is the principal book of account in a business" Comment (6)
- OR
- A) Define the term Journal and Ledger and differentiate between the two. Explain the utility of Ledger in accounting. (6)
 - B) From the following information pass opening entry in Journal of M/s ABC as on April 1, 2024 and post it in the ledger:
Cash in hand Rs. 10,000, Cash at Bank Rs. 15,000, Stick-in-Trade Rs. 1,20,000, Land and Building Rs. 2,00,000, Furniture Rs. 55,000, Owing from Dilip Rs. 50, 000 Prepaid Insurance Rs. 2,000 Loan from Kumar Rs. 50,000, Salaries outstanding Rs. 2,000, owing to Ramesh Rs. 20,000. (12)
-
3. A) A Company purchased machinery on 1st January 2021 for Rs 3,00,000 subsequent to which Rs 60,000 and Rs 40,000 were spent on its repairs and installation respectively. On 1st July 2022 another machinery was purchased for Rs 2,60,000. On 1st July 2023, the first machinery was become outdated and sold for Rs 3,00,000. On the same date another machinery was purchased for Rs 2,50,000.

On 1st July 2024, the second machinery was sold off for Rs 2,30,000. Deprecation was Provided on machinery @10% on the original cost annually on 31st December, under the Fixed Installment Method. From the 1st January 2023, the method of providing depreciation was changed to Reducing balance method, the rate being 15%. (15)

B) Differentiate between Trade Discount and Cash Discount (3)

OR

A) On April 1, 2024 X Ltd. Purchased a machine costing Rs. 4,00,000 and spent Rs. 50,000 on its installation. The estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be Rs. 50,000 only. Find the amount of annual depreciation according to the Fixed Installment Method. Installment Method and prepare Machinery Account for the first three months years. The books are closed on March 31st every year. (9)

B)) Explain the meaning and types of cash book. (9)

4. A) The following is the trial balance sheet extracted from the books of Abhinav as on 30th September 2024:

Particular	Debit Amount (Rs)	Credit Amount (Rs)
Capital Account	-	1,00,000
Plant and Machinery	78,000	-
Furniture	2,000	-
Purchases and Sales	60,000	1,27,000
Returns	1,000	750
Opening Stock	30,000	-
Discount	425	800
Sundry Debtors/Creditors	45,000	25,000
Salaries	7,550	-
Manufacturing Wages	10,000	-
Carriage Onwards	1,200	-
Provision for Doubtful Debt	-	525
Rent, Rate and Taxes	10,000	-
Advertisements	2,000	-
Cash	6,900	-
	2,54,075	2,54,075

Prepare trading and profit & loss account for the year ended 30th September 2024 and a balance sheet on that date after taking into account following adjustments:

1. Closing stock was valued at Rs 34,220.
2. Provision for doubtful debt is to be kept at Rs 500.
3. Depreciate plant and Machinery @ 10% p.a.
4. The proprietor has taken goods worth Rs 5,000 for personal use and additionally distributed goods worth Rs 1,000 as samples.
5. Purchase of furniture Rs 920 has been passed through purchase book.
6. On the 30th September 2024, it was decided by the management to revalue the machine at 75,000 before charging depreciation. (18)

OR

A) What is Trial Balance? What are the major objectives and limitations of Trial Balance? (6)

B) Saroj Khanna has been trading for some years in food grains, the following list of balances has been extracted from her ledger on 31st march 2024, the end of her most recent financial year:

Particular	(Rs)
------------	------

Capital	83,887
Sales	2,59,870
Trade creditors	19,840
Returns Out	13,407
Provision for Bad Debts	512
Discount Allowed	2,306
Discount Recieved	1,750
Purchases	1,35,680
Return Inward	5,624
Carriage outward	4,562
Carriage Onwards	18,440
Drawings	11,830
Rent, Rate and Taxes	25,973
Electricity	11,010
Postage, Stationery and Telephone	2,410
Advertising	5,980
Salaries and Wages	38,521
Bad Debts	2,008
Cash in Hand	534
Cash at Bank	4,440
Stock as at 1 April 2024	15,654
Trade Debtors	24,500
Fixtures and Fitting at Cost	1,02,990
Provision for Depreciation on Fixtures and Fitting at 31 st March 2024	63,020
Deprecation	12,074
Stock as at 31 st March 2024	17,750

The Following additional information as on 31st march 2024 is available:

- Insurance have been prepaid by 1,120.
- Electricity is accrued by Rs 1360.
- Rates have been prepaid by Rs 5435.
- The provision for bad debts is to be adjusted so that it is 3% of trade creditors. (12)

5. A) Distinguish between the Statement of Affairs and Balance Sheet?

(9)

B) Explain how we can calculate opening capital and closing capital from incomplete records? (9)

OR

A) Y Ltd doesn't keep proper accounting record of his firm. From the following information, you are required to prepare Statement of affairs and calculate the profit or loss for the year ended 31st March, 2024.

Capital at 1 st April, 2023	12,00,000
Bills Receivables	40,000
Cash	70,000
Plant	5,00,000
Land & Building	9,00,000
Creditors	3,00,000
Stock	1,00,000
Additional Capital Introduced	4,00,000
Drawings	50,000 (total)

Ascertain the Statement of Affairs at the end of the year and also calculate the profit or loss. (10)

B) What do you mean by Single entry System? Explain the features and Limitations of Single-entry system? (8)

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. प्रश्न-पत्र प्राप्त होते ही ऊपर अपना रोल नंबर लिखें।
2. उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे जा सकते हैं, परंतु पूरे प्रश्न-पत्र में एक ही माध्यम का प्रयोग करें।
3. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. सभी प्रश्न समान अंक के हैं।
5. साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमत है।

प्रश्न 1 (क) लेखांकन का मुख्य उद्देश्य ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो निवेश एवं ऋण निर्णयों में उपयोगी हो। स्पष्ट कीजिए। (8 अंक)

(ख) लेखांकन सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? चार लेखांकन सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाइए। (10 अंक)

अथवा

(क) एकल प्रविष्टि प्रणाली और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। (10 अंक)

(ख) संक्षेप में कारण बताते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य (True) या असत्य (False) हैं:

1. लेखांकन केवल एक कला है, विज्ञान नहीं।
2. लेखांकन जानकारी गैर-मौद्रिक घटनाओं के लिए भी प्रस्तुत की जा सकती है।
3. किसी व्यवसाय की सभी लेन-देन नकद आधार पर दर्ज किए जाते हैं।
4. अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लेनदारों को समान प्रकार की लेखांकन जानकारी की आवश्यकता होती है। (8 अंक)

प्रश्न 2 (क) खातों के पारंपरिक वर्गीकरण तथा लेखांकन समीकरण-आधारित वर्गीकरण के अनुसार डेबिट और क्रेडिट के नियमों की व्याख्या कीजिए। (12 अंक)

(ख) “लेजर व्यवसाय की प्रमुख लेखा-बही है” — टिप्पणी कीजिए। (6 अंक)

अथवा

(क) जर्नल एवं लेजर को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में अंतर बताइए। लेखांकन में लेजर की उपयोगिता समझाइए। (6 अंक)

(ख) निम्नलिखित जानकारी के आधार पर मैसर्स एबीसी की 1 अप्रैल 2024 की प्रारंभिक प्रविष्टि (Opening Entry) जर्नल में कीजिए तथा लेजर में पोस्ट कीजिए:

- नकद हाथ में ₹10,000
- बैंक में नकद ₹15,000
- स्टॉक-इन-ट्रेड ₹1,20,000
- भूमि एवं भवन ₹2,00,000
- फर्नीचर ₹55,000
- दिलीप से देय ₹50,000
- अग्रिम बीमा ₹2,000

- कुमार से ऋण ₹50,000
- बकाया वेतन ₹2,000
- रमेश को देय ₹20,000

(12 अंक)

प्रश्न 3 (क) एक कंपनी ने 1 जनवरी 2021 को ₹3,00,000 की मशीनरी खरीदी। इसके बाद मरम्मत पर ₹60,000 तथा स्थापना पर ₹40,000 खर्च किए गए।

1 जुलाई 2022 को ₹2,60,000 की एक और मशीनरी खरीदी गई।

1 जुलाई 2023 को पहली मशीनरी पुरानी हो गई और ₹3,00,000 में बेच दी गई। उसी दिन ₹2,50,000 की नई मशीनरी खरीदी गई।

1 जुलाई 2024 को दूसरी मशीनरी ₹2,30,000 में बेच दी गई।

मशीनरी पर मूल लागत पर 10% वार्षिक की दर से स्थिर किस्त विधि (Fixed Installment Method) से 31 दिसंबर को अवमूल्यन लगाया जाता था।

1 जनवरी 2023 से अवमूल्यन की विधि बदलकर घटती शेष विधि (Reducing Balance Method) कर दी गई, दर 15%।

(15 अंक)

(ख) व्यापार छूट और नकद छूट में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(3 अंक)

अथवा

(क) 1 अप्रैल 2024 को X Ltd. ने ₹4,00,000 की मशीन खरीदी तथा स्थापना पर ₹50,000 खर्च किए। मशीन की अनुमानित आयु 10 वर्ष है और अवशिष्ट मूल्य ₹50,000 होगा।

स्थिर किस्त विधि से वार्षिक अवमूल्यन ज्ञात कीजिए तथा पहले तीन वर्षों के लिए मशीनरी खाता तैयार कीजिए। (पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती हैं।)

(9 अंक)

(ख) नकद बही (Cash Book) का अर्थ एवं उसके प्रकार समझाइए।

(9 अंक)

प्रश्न 4 अभिनव की बहियों से 30 सितंबर 2024 को निकाला गया परीक्षण संतुलन दिया गया है। निम्न समायोजनों को ध्यान में रखते हुए:

विवरण (Particulars)	डेबिट राशि (₹)	क्रेडिट राशि (₹)
पूंजी खाता (Capital Account)	—	1,00,000
प्लांट एवं मशीनरी (Plant and Machinery)	78,000	—
फर्नीचर (Furniture)	2,000	—
क्रय एवं विक्रय (Purchases and Sales)	60,000	1,27,000
प्रतिफल / वापसी (Returns)	1,000	750
प्रारंभिक भंडार (Opening Stock)	30,000	—
छूट (Discount)	425	800
विविध देनदार / लेनदार (Sundry Debtors / Creditors)	45,000	25,000
वेतन (Salaries)	7,550	—
निर्माण मजदूरी (Manufacturing Wages)	10,000	—

विवरण (Particulars)	डेबिट राशि (₹)	क्रेडिट राशि (₹)
दुलाई व्यय (Carriage Outwards)	1,200	—
संदिग्ध देयों के लिए प्रावधान (Provision for Doubtful Debt)	—	525
किराया, कर एवं शुल्क (Rent, Rates and Taxes)	10,000	—
विज्ञापन व्यय (Advertisements)	2,000	—
नकद (Cash)	6,900	—
कुल (Total)	2,54,075	2,54,075

- व्यापार खाता एवं लाभ-हानि खाता तैयार कीजिए
- तथा उसी तिथि की बैलेंस शीट बनाइए

समायोजन:

1. अंतिम भंडार ₹34,220
2. संदिग्ध देयों के लिए प्रावधान ₹500
3. प्लांट एवं मशीनरी पर 10% अवमूल्यन
4. स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु ₹5,000 का माल तथा नमूनों के रूप में ₹1,000 का वितरण
5. फर्नीचर की ₹920 की खरीद, जो खरीद पुस्तिका में दर्ज हो गई
6. 30 सितंबर 2024 को मशीन का पुनर्मूल्यांकन ₹75,000 (अवमूल्यन से पहले)
(18 अंक)

अथवा

(क) परीक्षण संतुलन (Trial Balance) क्या है? इसके उद्देश्य एवं सीमाएँ बताइए।

(6 अंक)

(ख) सरोज खन्ना के खातों से 31 मार्च 2024 को निकाले गए शेषों के आधार पर आवश्यक खातें तैयार कीजिए तथा दिए गए अतिरिक्त समायोजन करें।

(12 अंक)

विवरण (Particulars) — राशि (₹)

- पूंजी (Capital) – ₹83,887
- विक्रय (Sales) – ₹2,59,870
- व्यापार लेनदार (Trade Creditors) – ₹19,840
- बिक्री वापसी / रिटर्न आउट (Returns Out) – ₹13,407
- खराब देयों के लिए प्रावधान (Provision for Bad Debts) – ₹512
- दी गई छूट (Discount Allowed) – ₹2,306
- प्राप्त छूट (Discount Received) – ₹1,750
- क्रय (Purchases) – ₹1,35,680
- क्रय वापसी / रिटर्न इनवर्ड (Return Inward) – ₹5,624
- बिक्री पर दुलाई व्यय (Carriage Outward) – ₹4,562
- आवक दुलाई / क्रय पर दुलाई (Carriage Inwards) – ₹18,440
- आहरण / आहरित राशि (Drawings) – ₹11,830

- किराया, कर एवं शुल्क (Rent, Rates and Taxes) – ₹25,973
- बिजली व्यय (Electricity) – ₹11,010
- डाक, स्टेशनरी एवं टेलीफोन व्यय (Postage, Stationery and Telephone) – ₹2,410
- विज्ञापन व्यय (Advertising) – ₹5,980
- वेतन एवं मजदूरी (Salaries and Wages) – ₹38,521
- अशोध्य देय (Bad Debts) – ₹2,008
- नकद हाथ में (Cash in Hand) – ₹534
- बैंक में नकद (Cash at Bank) – ₹4,440
- प्रारंभिक भंडार (1 अप्रैल 2024) (Opening Stock) – ₹15,654
- व्यापार देनदार (Trade Debtors) – ₹24,500
- फिक्स्चर एवं फिटिंग (लागत पर) (Fixtures and Fittings at Cost) – ₹1,02,990
- फिक्स्चर एवं फिटिंग पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान (31 मार्च 2024) – ₹63,020
- अवमूल्यन (Depreciation) – ₹12,074
- अंतिम भंडार (31 मार्च 2024) (Closing Stock) – ₹17,750

प्रश्न 5 (क) स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(9 अंक)

(ख) अपूर्ण अभिलेखों से प्रारंभिक पूंजी एवं अंतिम पूंजी की गणना कैसे की जाती है? समझाइए।

(9 अंक)

अथवा

(क) Y Ltd. के पास पूर्ण लेखांकन अभिलेख नहीं हैं। दी गई जानकारी से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार कीजिए तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

(10 अंक)

विवरण (Particulars)	राशि (₹)
1 अप्रैल 2023 को पूंजी (Capital at 1st April, 2023)	12,00,000
बिल प्राप्य (Bills Receivable)	40,000
नकद (Cash)	70,000
प्लांट (Plant)	5,00,000
भूमि एवं भवन (Land & Building)	9,00,000
लेनदार (Creditors)	3,00,000
स्टॉक (Stock)	1,00,000
अतिरिक्त पूंजी जोड़ी गई (Additional Capital Introduced)	4,00,000
आहरण (Drawings)	50,000 (कुल)

(ख) एकल प्रविष्टि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएँ एवं सीमाएँ बताइए।

(8 अंक)

(500)